



Ref. No.P-66/2025-26/15
May 29, 2025

The Relationship Manager,
Department of Corporate Relations
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street
Fort, MUMBAI – 400 001

Dear Sir/Madam,

Subject: Submission of Advertisement Clipping of Extract of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Financial Year Ended 31st March, 2025

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of the advertisement clipping of Extract of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended 31st March 2025, published in Business Standard, Mumbai and Swadesh Bhopal on 29th May 2025. The said financials were approved at the Meeting of the Board of Directors of the Company held on Wednesday, 28th May 2025.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,
For 3B BlackBio Dx Limited (Formerly, Kilpest India Limited)

Navneet Kaur Digitally signed by Navneet Kaur
Date: 2025.05.29 14:07:47 +05'30'

Navneet Kaur
Company Secretary and Compliance Officer
ACS No: 29130

Encl: As above

मंदिर जा रहे बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत

भोपाल। भोपाल में स्कूली सवार बुजुर्ग ऐंथी को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मारी। हादसे में भेल के सेवानिवृत्त सब ईशनीयर पवन नरेंद्र चक्रवर्ती की मौत होई। घटना बिगुला मंदिर पाँहिन के पास की है। मामले में अर्रा हिस्सा खास पुलिस ने मौत कायम कर आँख चक्र कर दी है। बुजुर्ग की दोपहर को पाँचपहर के बाद शव पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पवन चक्रवर्ती (63) अशोक हिस्सा कलनी अशोक बाईन में रहते थे और भेल के रिटायर्ड एंजिनर सब ईशनीयर थे। हाई सल फ्लायट कार डायरेक्टर में रहे। उनकी को संतान नहीं थी, पत्नी के साथ रहते थे। 123 मई 2025 को पत्नी गोपाली के साथ बिड़ला मंदिर दखन करने के लिए गए थे। वाहन को पाँहिन की तरफ जा रहे थे। पत्नी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें दोपहर टक्कर मारी। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। पंच दिन को इलाज के बाद आज सुबह उनकी मौत हो गई। हालाँकि पत्नी के इलाज में मालुमी चोट थी। आरोपी इलाज के बाद उनसे अस्पताल में पत्नी का रिहा किया गया। बा चकवर्ती ने पुलिस को बताया कि पत्नी के हावस सवार युवक भी वाहन हरा था। हालाँकि वह बाद में बाइक सहीत भाग गए थे। पुलिस उनको पहाचन कर गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

कैश से भरा बैग-आइफोन लेकर भागे बदमाश करीबियों की मिलीभगत की आशंका खदेओ ज्योति संवाददाता भोपाल

भोपाल के गौम नगर इलाके में बुजुर्ग दोपहर कालीय को तेज रफ्तार के कर्नी के कलेक्शन एजेंट से बाइक सवार दो बदमाशों ने लूट की चारवात को अंजाम दिया। आरोपी दोनों ने अस्सी फीट ठीक पर चलेती गाड़ी में कलेक्शन एजेंट को पीछे से पीट पर चढ़ाया। इनके बाद बदमाशों ने कैश से भरा बैग और आईफोन ड्रॉप किया। फरियारी के एक साथी ने फरियारी का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश चक्का देकर फरार हो गए। आरोपी के संश्लिटी पूजेज भी पुलिस को मिला गए हैं। बदमाशों को पीछे से अटार सगामी भी पुलिस के हाथ

23 मई को स्कूटी पर, बाइक सवार ने पीछे से मारी थी टक्कर

चलती बाइक पर कलेक्शन एजेंट की पीठ पर चाकू मारा

85 हजार रुपए कीमत का आईफोन छीन लिया

रस्ते में पीछे से टू-हिलर (डिओ) सारो दो युवक आगे और आइल्यो को चलती गाड़ी पर पीछे से चाकू मार दिए। आइल्यो के गिराई हो एक बदमाशों ने कैश से भरा बैग छीन लिया। जमिनी दरसे में दरसम 85 हजार रुपए कीमत का आईफोन छीन लिया।

फरियारी के साथी ने बदमाशों का पीछा भी किया

अदिक के साथ घटना के समय आइल्यो को खराब साथी था। वह आगे बाइक से चल रहा था। घटना के बाद उसने आरोपी को पीछा किया, लेकिन बदमाश उस चक्का देकर फरार हो गए। भागते हुए आरोपी को फूटिंग पुलिस को मिले हैं। वाहन नंबर और ड्रिफ्ट के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है।

लगे हैं। आरोपीयों को जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। नमक कंपनी ने कलेक्शन के लिए निकला था फरियारी आइल्यो अर्रा (24) छोला इलाके में रहता है। वह बी.डी. में प्रेजेंट है। और फिनलान्ड नमक कंपनी में बर्लर कलेक्शन एजेंट काम

करता है। बुधवार सुबह कलेक्शन के लिए निकला था। पुराने शहर में ईदगाहा हिस्सा, शाहजहाँवाला को कंपनी कैप और टीला जामलुसू, कंपनी का कैश कलेक्टर, 85 हजार कीमत की गाड़ी में पीछे से पीट पर चढ़ाया था।

रस्ता में पीछे से टू-हिलर (डिओ) सारो दो युवक आगे और आइल्यो को चलती गाड़ी पर पीछे से चाकू मार दिए। आइल्यो के गिराई हो एक बदमाशों ने कैश से भरा बैग छीन लिया। जमिनी दरसे में दरसम 85 हजार रुपए कीमत का आईफोन छीन लिया।

भोपाल के गौम नगर इलाके में बुजुर्ग दोपहर कालीय को तेज रफ्तार के कर्नी के कलेक्शन एजेंट से बाइक सवार दो बदमाशों ने लूट की चारवात को अंजाम दिया। आरोपी दोनों ने अस्सी फीट ठीक पर चलेती गाड़ी में कलेक्शन एजेंट को पीछे से पीट पर चढ़ाया। इनके बाद बदमाशों ने कैश से भरा बैग और आईफोन ड्रॉप किया। फरियारी के एक साथी ने फरियारी का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश चक्का देकर फरार हो गए। आरोपी के संश्लिटी पूजेज भी पुलिस को मिला गए हैं। बदमाशों को पीछे से अटार सगामी भी पुलिस के हाथ

85 हजार रुपए कीमत का आईफोन छीन लिया

रस्ते में पीछे से टू-हिलर (डिओ) सारो दो युवक आगे और आइल्यो को चलती गाड़ी पर पीछे से चाकू मार दिए। आइल्यो के गिराई हो एक बदमाशों ने कैश से भरा बैग छीन लिया। जमिनी दरसे में दरसम 85 हजार रुपए कीमत का आईफोन छीन लिया।

फरियारी के साथी ने बदमाशों का पीछा भी किया

अदिक के साथ घटना के समय आइल्यो को खराब साथी था। वह आगे बाइक से चल रहा था। घटना के बाद उसने आरोपी को पीछा किया, लेकिन बदमाश उस चक्का देकर फरार हो गए। भागते हुए आरोपी को फूटिंग पुलिस को मिले हैं। वाहन नंबर और ड्रिफ्ट के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है।

तीन सिलेंडर, कार सहित पंप जळव

तंबाकू एक धीमा जहर-बचाव ही समझदारी थीम पर मनाया जाएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस

[illegible]

भोपाल के वन प्रबंधन संस्थान

मेहुआ

कार्यालया के आयोजन

कार्यालय नगर पालिका परिषद नगरीय जिला सीहोर म.प्र.

क्र 6206/राजस्/2025

सीहोर दिनांक 28/05/2025

म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1081 की उपधारा 150 के तहत नगर पालिका सीहोर की सीमा अंतर्गत नजीबी डी-150 के तहत नगर प्रबंधन नगरपालिका के प्रकण्डन इस कार्यालय को प्राप्त हुए है। परंतु द्वारा उक्त प्रकाशित सूचना के संबंध में यदि किसी नागरिक को लक्ष्य किसी भी व्यक्ति / फर्म/बैक/वित्तीय संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इस सार्वजनिक प्रकाशन दिन से 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक अभिलेखी सहित इस कार्यालय में लिखित आवेदन प्रस्तुत करे। बाद अधीन पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति सीहोर नहों की जावेगी।

क्र	वार्ड नं.	क्षेत्र क्र.	अवैधान्तिकता	हस्तांतरणकर्ता का नाम	हस्तांतरित का नाम	संपत्ति का नाम स्थान, पता	नामांतरण का आधार
01	11	27	04.04.25	जितेंद्र धर्मा / प्रमाणकर धर्मा	नूतन धर्मा / जितेंद्र धर्मा	सुधाना नगर, अवैधकट पार्क के बाग, गंज सीहोद	टंजिडी
02	09	940/J	17.04.25	हेमलता वर्मा / देवदत्त वर्मा	टोहिट मीठागिया / जाराणा सिंह	घाणक्यपुरी, मुदली सीहोद	टंजिडी
03	24	31	17.04.25	भगवती बाई / जगन्नाथ	कमलेश टाटोर / जगन्नाथ सिंह	मानक बाग	नजूल नामांतरण नमू प्रमाण पत्र
04	3	1005	01.05.25	आर्य पात्र लीफ प्रायवेट लिमिटेड अनिल कु. कुल्कर्णे	विष्की टाटोर / रविंदर सिंह टाटोर	गजकेशरी कलोनी सीहोद	टंजिडी
05	3	1005	01.05.25	आर्य पात्र लीफ प्रायवेट लिमिटेड अनिल कु. कुल्कर्णे	नेहा टाटोर/राजेश कु. टाटोर	गजकेशरी कलोनी	टंजिडी
06	22	06.05.25	अर्चना/राधिका प्रकाश श्रीवास्तव	संगीता सेन / राधेश्याम सेन	पुलिस्त लाईन गल्ला मंडी	टंजिडी	
07	22	07.05.25	अमृदी मालवती / राजेन्द्र	रिची टाटोर / कुलदीप कुमार कुलदीप कु टाटोर/सुदेश कु टाटोर	इन्द्रा कालोनी मंडी सीहोद	टंजिडी	
08	24	652	13.05.25	नवदीपा गोयल / स्व नमंगतराम टाय	दीपाक टाय गोयल/ स्व नमंगतराम गोयल	दुल्हा बाइबाद रोड छवनी टाटोर	टंजिडी
09				रंजना टाटोर / रामचंद्र	लुकिनेड / जोगेश सिंह नेहाड	मुदली हाउसिंग को कॉलोनी	टंजिडी
10	09	524	19.05.25	अंजना / प्रहलाद जैन	इन्दुजित / मांगलाल	मुदली सेंट्रल के पिछे	टंजिडी
11	03	968	19.05.25	रेखा बाई/जीवन	एन प्रजापति/राजेंद्र	बजरंग कालोनी	टंजिडी
12	03	968	19.05.25	नूतेश चंदानी/बी.एन.चंदानी	कमल जैन / सतीश	पाटन गुलबार् वाटिका	टंजिडी
13	29	435	19.05.25	सुदर्शन टाय / सोहन लाल टाय	किशन कुमार / श्रीधर प्रसाद	पाटन वाटिका	टंजिडी
14	29	439	19.05.25	सुदर्शन टाय/सोहन लाल टाय	तपन कु दास/धरम टाय	पाटन वाटिका	टंजिडी
15	29	417	19.05.25	पूजन जैन/पाटन जैन	मोतीलाल	पाटन वाटिका	टंजिडी
16	29	437	19.05.25	सुदर्शन टाय / सोहन लाल टाय	रूद्र करण्यु / गोमुख चंद	पाटन वाटिका	टंजिडी
17	29	433	19.05.25	सुदर्शन टाय / सोहन लाल टाय	सतीश कुमार	पाटन वाटिका	टंजिडी
18	08	458	22.05.25	होलातन दासगानी/स्व रतनचंद	राजेंद्र दासगं/होलातन मौजा, सुनीर, अनिता, ज्योती, अनु कुमारा/चन्दकान्त, मोनिका, कुशल	नमू प्रमाण पत्र	
19	09	524	22.05.25	अंजना जैन/प्रहलाद जैन	रिजिनेड मेथल/गोमलाल	मुदली	टंजिडी
20	12	320	22.05.25	श्रीराम यादव/लल्लूदास यादव	शिवजी यादव / शंजय यादव	बड़ी खाला टोली गंज	टंजिडी
21	08	382	22.05.25	आरपी यादव/मनलाल यादव	शिव कुमारी / रामदास यादव	इन्डिख पुरा	टंजिडी
22	08	194	22.05.25	शशांक शाह / साजिन यादव	अनुषा डामा/पिपिक मुकुटा	इन्डिख पुरा	टंजिडी
23	21	619	22.05.25	अशोक खरे/डामा राम खरे	पुष्पा खरे/अशोक खरे, सुख खरे, रंजनी खरे	हाउसिंग को कॉलोनी	टंजिडी
24	18	172	22.05.25	टंडसी श्री/शेरा माहाम्मद	तबसुम/मो सालिद	लेखर कालोनी	टंजिडी
25	03	147	23.05.25	एस आर दिग्वज चहरेत क. सुदर्शन टाय	अनंतकांत / शिव प्रसाद धुल्ला	एस आर विहार कालोनी	टंजिडी
26	08	882	23.05.25	शिव कुमारी / स्व रामदास यादव, कोहलदेव, संभव यादव	कमलेश यादव /एम. पी यादव	इन्डिख पुरा	टंजिडी
27	27	147	23.05.25	रहमान सा	मो इमरान /स्व मो रहमान सा को रहमान मो देहान/मो इफ्फाज	जामा मस्जिद के पास एम टी टी स्कूल के सामने	टंजिडी
28	21	1005	28.05.25	पुत्र लता श्रीवास्तव/देवेंद्र कुमार	राजिव प्रकाश, सतीश, प्रदीप देवेंद्र कुमार	सीता नगर	मोती नामांतरण, हावेली जमिन
29	25	155	28.05.25	राजकुमार सिंह / सुनील सिंह	राजेंद्र / रामदास यादव राजेंद्र	सुभाष नगर	

**मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सीहोद**

Particulars	QUARTER ENDED			YEAR ENDED	
	31-03-2025	31-12-2024	31-03-2024	31-03-2025	31-03-2024
	(audited)	(unaudited)	(audited)	(audited)	(audited)
1. Total Income from Operations	2792.75	2644.03	2613.24	10555.55	8304.25
2. Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1414.22	1773.18	1399.60	6392.75	4644.45
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1414.22	1773.18	1399.60	6392.75	4644.45
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	924.39	1344.84	905.73	4755.95	3421.35
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	924.39	1344.84	905.73	4755.95	3421.35
6. Equity Share Capital	856.84	856.84	865.84	856.84	856.84
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the	21921.24	21921.24	18752.83	21921.24	18752.83
Balance Sheet of previous financial year)					
8. Earnings Per Share					
1. Basic :	10.79	15.70	10.57	55.51	39.93
2. Diluted :	10.79	15.70	10.57	55.51	39.93

EXTRACTS OF STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/YEAR ENDED
31st MARCH, 2025

Particulars	QUARTER ENDED			YEAR ENDED	
	31-03-2025	31-12-2024	31-03-2024	31-03-2025	31-03-2024
	(audited)	(unaudited)	(audited)	(audited)	(audited)
1. Total income from Operations	2743.82	2840.55	2719.24	11155.22	8665.73
2. Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1253.91	1779.61	1372.90	6399.82	4433.22
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1253.91	1779.61	1372.90	6399.82	4433.22
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	803.55	1349.52	879.03	4769.11	3210.12
5. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	803.55	1349.52	879.03	4769.11	3210.12
6. Equity Share Capital	856.84	856.84	856.84	856.84	856.84
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous financial year)	21690.58	21690.58	18734.45	21690.58	18734.45
8. Earnings Per Share					
1. Basic :	9.38	15.75	10.26	55.66	37.46
2. Diluted :	9.38	15.75	10.26	55.66	37.46

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Statements of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025 ("These Results") filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. These Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on May 28, 2025. The full format of Quarterly Financial Results are available on the BSE website (<https://www.bseindia.com>) and on the Company's website (www.kilplast.com) (<https://kilplast.com/upload/Final%20FR%20Q1-2025%20for%20BSE.pdf>) The same can be accessed by scanning the QR code provided below.

2. The Audit, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, has been completed on these Results and the Audit Reports by the Statutory Auditors, expressing unmodified opinion on these Results, have been filed with the Stock Exchanges.



Valson Industries Limited MANUFACTURER OF ART SILK SYNTHETIC YARN AN ISO 9001 CERTIFIED COMPANY									
REGD OFFICE: 28, Bldg 110MH08193PL03017 G-10, 6, Mital Industrial Estate, 3rd M. V. Road, Andheri (E), Mumbai 400059. Phone No: 40661000 Email: info@valsonindia.com Website: www.valsonindia.com									
Statement of Audited Results for the Quarter and Year ended 31/03/2025									
Particulars	(Rs. in Lakhs)								
	3 months ended	Preceding 3 months ended in the previous year	Year to date figures for the previous period ended	Year to date figures for the previous period ended	31-Mar-24 (Audited)	31-Mar-24 (Unaudited)	31-Mar-24 (Audited)	31-Mar-24 (Unaudited)	31-Mar-24 (Audited)
Total Income from Operations (net)	3,356.31	3,768.04	21,812.22	13,083.98	12,512.07	12,512.07	12,512.07	12,512.07	12,512.07
Net Profit / (Loss) from operations activities after tax	51.57	7.07	37.02	60.62	98.21	98.21	98.21	98.21	98.21
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary Items)	76.08	766.08	766.08	766.08	766.08	766.08	766.08	766.08	766.08
Equity Share Capital									
Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)									
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each):									
(a) Basic	0.67	0.09	0.48	0.79	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28
(b) Diluted	0.67	0.09	0.48	0.79	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each):									
(a) Basic	0.67	0.09	0.48	0.79	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28
(b) Diluted	0.67	0.09	0.48	0.79	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28

Note: The above is an extract of the detailed format of Statements of Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2025 is available on the Company's website at www.valsonindia.com and also on the Stock Exchanges websites, i.e., on BSE Limited at www.bseindia.com

For Valson Industries Ltd.
Suresh N. Murtreja
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date: 28th May 2025

<div>Muthoot Homefin (India) Ltd.</div> <div>Corporate Office: Unit No. 19-1F, 19th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg, Near Ruparel College, Dadar (West), Mumbai - 400 028</div>				
DEMAND NOTICE				
<p>Under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3(1) of the Security Interest (Mortgage) Rules, 2002. The undersigned is the Authorised Officer (Muthoot Homefin (India) Ltd. (MHIL) under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act), in exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3(1) of the Security Interest (Mortgage) Rules, 2002, the Authorised Officer has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower/s (the "said Borrower"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s issued to them that are also given below.</p> <p>In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower to pay to MHIL, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further interest at 2% p.m. as detailed in the said Demand Notices, from the dates mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrowers. As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to MHIL as the said Borrowers respectively.</p>				
Sr. No.	Name of the Borrower/s (Co-Borrower) (Girant/ Loan Account No./ Branch)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Description of secured asset (immovable property)
1.	Sanjay Devram Malvi / Rupali Sanjay Malvi / O-18-0180044/ Jalgon	Rs. 6,66,490/- Rupees Six Lakh Sixty Six Thousand Four Hundred Ninety Only & Rs. 2,53,344/- Rupees Two Lakh Fifty Three Thousand Eight Hundred Thirty Four Only.	20-May-2025	All That Piece And Parcel of Immovable Property (E) Western Side Block Having Vacant Area Admeasuring 45 Square Meters out of Total Area Measuring 159.76 Square Meters Constructed on Non Agricultural Land Bearing Plot No. 59 Admeasuring Total Area 30 Square Meters out of Total Area Measuring 60.94 Square Meters Situated At Village Shirshi Taluka East Jalgon And Within The Local Limits of Savhede Bhat Grampanchayat Asst. By-Plot No. 59 Part, West By Plot No. 60 North-By Road, South - By Survey No. 64.
2.	Ramali Ekrauth / Sonawane / Sunita / Ramali Sonawane/ O-18-0180051/ Jalgon	Rs. 4,76,890/- Rupees Four Lakh Seventy Six Thousand Eight Hundred Ninety Only.	20-May-2025	All That Piece And Parcel of Block No. 65 out of Plot No. 27 To 34 Measuring 49.569 Square Meters out of Total Area Measuring 159.76 Square Meters Along With Construction Measuring 41.880 Square Meters Out of Total Area Measuring 134.40 Square Meters, Corresponding Grampanchayat Survey No. 2453 in the Scheme Known as Sakinaka Hari Part Gut. No. 218 Situated At Village Shirshi Pra. Bo. Taluka East Jalgon And Within The Local Limits of Savhede Bhat Grampanchayat And Boundaries (As Per Technical Report) As Follows: East- 6 Meter Road, West- By Road, North- By Road, South- Block No. 67, North-Block No. 64, South-Block No. 66.
3.	Dnyaneshwar / Dhudaku Surwade/ Sangita Dnyaneshwar / Surwade/ Sagar Dnyaneshwar / Surwade/ D18 / O1803055/ Jalgon	Rs. 6,77,594/- Rupees Six Lakh Seventy Seven Thousand Five Hundred Ninety Four Only.	20-May-2025	All That Piece And Parcel of Block No. 1, On Plot No. 1 Measuring 134.40 Square Meters out of Total Area Measuring 134.40 Square Meters, Corresponding Grampanchayat Survey No. 2453 in the Scheme Known as Sakinaka Hari Part Gut. No. 218 Situated At Village Shirshi Pra. Bo. Taluka East Jalgon And Boundaries (As Per Technical Report) As Follows: East- By Block No. 2, 8 & 9 Meter Road, West By Block No. 2, 8 & 9 Meter Road, North- By Block No. 2, 8 & 9 Meter Road, South- By Block No. 2, 8 & 9 Meter Road.

If the said Borrowers shall fail to make payment to MHIL as aforesaid, MHIL shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences.

The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of MHIL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act or Rules made thereunder, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

Date: May 29, 2025, Place: Jalgon

Sd/-Authorized Officer, Muthoot Homefin (India) Limited

3B BLACKBIO DX LIMITED

(Formerly, Kilpest India Limited)

CIN: L2421IMP1972PLC001131

REGD. OFFICE: 7-C, INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURJA, BHOPAL-462 023

E-mail: info@kilpest.com, Website: www.kilpest.com

Tel: (91-75) 2586536, 2586537

EXTRACTS OF STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/YEAR ENDED 31st MARCH, 2025

PARTICULARS	(Rs. in Lakhs)			
	31.03.2025 (audited)	31.03.2024 (unaudited)	31.03.2024 (audited)	31.03.2024 (unaudited)
Total Income from Operations	2792.75	2644.03	2613.24	10555.55
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	1414.22	1773.18	1399.60	6392.75
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	1414.22	1773.18	1399.60	6392.75
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	924.39	1344.84	577.97	4755.95
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	924.39	1344.84	905.73	4755.95
Equity Share Capital	856.84	856.84	856.84	856.84
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous financial year)	21921.24	21921.24	18752.83	21921.24
Earnings Per Share				
1. Basic	10.79	15.70	10.57	55.51
2. Diluted	10.79	15.70	10.57	55.51

EXTRACTS OF STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/YEAR ENDED 31st MARCH, 2025

PARTICULARS	(Rs. in Lakhs)			
	31.03.2025 (audited)	31.03.2024 (unaudited)	31.03.2024 (audited)	31.03.2024 (unaudited)
Total Income from Operations	2743.82	2840.55	2719.24	11155.22
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	1253.91	1779.61	1372.90	6399.82
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	1253.91	1779.61	1372.90	6399.82
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	803.55	1349.52	879.03	4769.11
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	803.55	1349.52	879.03	4769.11
Equity Share Capital	856.84	856.84	856.84	856.84
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous financial year)	21690.58	21690.58	18734.45	21690.58
Earnings Per Share				
1. Basic	9.38	15.75	10.26	55.66
2. Diluted	9.38	15.75	10.26	55.66

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Statements of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025 ("These Results") filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. These Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on May 28, 2025. The full format of Quarterly Financial Results are available on the BSE website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.kilpest.com) (<https://kilpest.com/upload/Final%20QFR%2031.03.25%20for%20BSE.pdf>). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.

2. The Audit, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, has been completed on these Results and the Audit Reports by the Statutory Auditors, expressing unmodified opinion on these Results, have been filed with the Stock Exchanges.

PLACE: BHOPAL

Date: 28th May 2025



FOR 3B BLACKBIO DX LIMITED
(FORMERLY, KILPEST INDIA LIMITED)
NIKHI KUBER DUBEY
WHOLE TIME DIRECTOR

WESTMINISTER CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

Reg. No. BOM/HSG/42020/OF 1974 Dated- 28/5/1974

N. S. Mankikar Mang, Chunabhatti, Mumbai-400 022.

DEEMED CONVEYANCE PUBLIC NOTICE

(Application No. 53/2025)

Notice is hereby given that the above Society has applied to this office under Section 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the promotion of construction sale, management & Transfer) Act, 1963 for declaration of Unilateral Deemed Conveyance of the following properties. The next hearing in this matter has been kept before on 12/06/2025 at 3:00 pm at the office of this authority.

Respondent No.- 1) The Swadeshi Mills Company Ltd., Bombay House, 24, Horny Mody Street, Mumbai-400 001. 2) M/s. Swadeshi Enterprises a Firm, a Shri. Pratapdar Durbhadas Seth, b) Shri. Piyush Pratapdar Seth, c) Shri. Mahesh P. Sheth (H.U.F.), d) Shri. Ramniklal Mohanlal Desai, e) Shri. Hansukhlal Mohanlal Desai, f) Shri. Rajniklal Mohanlal Desai, g) Shri. Bipin Mohanlal Desai, h) Shri. Deepak Ramniklal Desai, i) Shri. Manharbhai Rattal Bagadia, j) Shri. Suresh Rattal Bagadia, k) Shri. Harsadrai V. Shah, l) Shri. Girish H. Shah, m) Shri. Shresh H. Shah, n) Shri. Premal G. Shah, o) Shri. Girish H. Shah, p) Shri. Shresh H. Shah, q) Shri. Premal G. Shah, r) Shri. Girish H. Shah, s) Shri. Shresh H. Shah, t) Shri. Premal G. Shah, u) Shri. Girish H. Shah, v) Shri. Shresh H. Shah, w) Shri. Premal G. Shah, x) Shri. Girish H. Shah, y) Shri. Shresh H. Shah, z) Shri. Premal G. Shah.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY :-

Building of Westminster Co-operative Housing Society Ltd. along with land as mention below.

Survey No.	Hissa No.	Plot No.	C.T.S. No.	Claimed Area
--	--	--	--	--

Ref. No. MUM/DDR/2/Notice/1214/2025
Place: Konkarn Bhavan,
Competent Authority & District Dy. Registrar,
Co-operative Societies (2), East Suburban, Mumbai (NTIN DAHIBHATE)
Room No. 201, Konkarn Bhavan,
C. B. D. Belapur, Navi Mumbai-400614 (SEAL)
Date: 27/05/2025 Tel: 022-27574965
Email: ddrccpmumbai@gmail.com

NAVURGAS ASHISH CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

Reg. No. BOM/WH/HSG (TC)/987/1987-88 Dated-02/05/1988

Anandji Lane, Ghatkopar (East), Mumbai - 400 077.

DEEMED CONVEYANCE PUBLIC NOTICE

(Application No. 54/2025)

Notice is hereby given that the above Society has applied to this office under Section 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the promotion of construction sale, management & Transfer) Act, 1963 for declaration of Unilateral Deemed Conveyance of the following properties. The next hearing in this matter has been kept before on 12/06/2025 at 3:00 pm at the office of this authority.

Respondent No.- 1) G. K. Builders, Partner Shri. K. P. GOSWAMI, Mumbai-400071. Address : Shop No. 8, Valolabhi, Opp. Gandhi Market, M. G. Road, Ghatkopar (East), Mumbai-400 077. 2) Navurga Darshan CHSL, Anandji Lane, Ghatkopar (East), Mumbai - 400 077. And those, whose interests have been vested in the said property may submit their say at the time of hearing at the venue mentioned below. Failure to submit any say shall be presumed that nobody has any objection in this regard and further action will be taken accordingly.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY :-

Survey No.	Hissa No.	Plot No.	C.T.S. No.	Claimed Area
--	--	--	--	--

Ref. No. MUM/DDR/2/Notice/1213/2025
Place: Konkarn Bhavan,
Competent Authority & District Dy. Registrar,
Co-operative Societies (2), East Suburban, Mumbai (NTIN DAHIBHATE)
Room No. 201, Konkarn Bhavan,
C. B. D. Belapur, Navi Mumbai-400614 (SEAL)
Date: 27/05/2025 Tel: 022-27574965
Email: ddrccpmumbai@gmail.com

CONART ENGINEERS LIMITED

Ref. No. MUM/DDR/2/Notice/1213/2025
Place: Konkarn Bhavan,
Competent Authority & District Dy. Registrar,
Co-operative Societies (2), East Suburban, Mumbai (NTIN DAHIBHATE)
Room No. 201, Konkarn Bhavan,
C. B. D. Belapur, Navi Mumbai-400614 (SEAL)
Date: 27/05/2025 Tel: 022-27574965
Email: ddrccpmumbai@gmail.com

Sr. No.	Particulars	(Rs. in Lakhs except EPS)			
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended
		31-Mar-25 (Audited)	31-Mar-24 (Unaudited)	31-Mar-24 (Audited)	31-Mar-24 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations (Net)	2188.00	1415.78	1492.18	5652.98
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) #	248.19	9.06	294.57	387.59
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) #	248.19	9.06	294.57	387.59
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) #	125.03	20.54	267.32	308.11
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	124.21	17.74	289.49	374.93
6.	Paid-up share capital	3140.00	3140.00	3140.00	3140.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	2700.74	2668.25	2568.79	2700.74
8.	Securities Premium Account	19.74	19.74	19.74	19.74
9.	Net Worth	3212.48	3179.96	3070.53	2922.80
10.	Earning Per Share of Rs. 5/- each (EPS) (10/- Basic and diluted EPS before Extraordinary Items)	1.99	0.65	8.51	4.27

Notes: The above is an extract of the detailed format of year ended financial results filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the yearly financial results are available on the Stock Exchanges Website www.bseindia.com and Company website www.conartengineers.com

By Order of the Board of Directors

Executive Director (Sd/-)

DIN No: 03096604

Public Notice in Form XIII of MOFA (Rule 11) (e)

District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (3)

Competent Authority, Flats, 1963.

U/s 5A of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963.

Mhadsa Building, Ground Floor, Room No. 69, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

No.DDR-3/Mum / Deemed Conveyance/Notice/1808/2025 Date: - 27/05/2025

Application u/s 11 of Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the Promotion of construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963

Public Notice

Application No. 52 of 2025

Janki Vasundhara Co-op. Hsg. Soc. Ltd., Plot nos. 14 & 22, Janki Kutir, Juhu, Mumbai - 400049. ...Applicant. Versus. 1) M/s. Vikas Developers, (a) Madanji Gupta Family Trust, (Proprietor of M/s. Vikas Developers), (b) Shri. M. L. Gupta, (Trustee of Madanji Gupta Family Trust), Last named address of Opp. nos. 1(a) and 1(b), Mustafa Building, 3rd floor, Shri. P.M. Road, Mumbai - 400001. 2) M/s. Janki Sona Pvt. Ltd., 3) M/s. Bajaj Trading Company alias Bajaj Trading Company, Last known address of Addressee nos. 2 & 3, Bachcherya Bhavan, Bachchery Road, Waroda, Maharashtra. 4) Elsie F. Kinzinger, 5) Mr. Narayan Ramji Contractor, 6) Kum. Steela Snead alias Miss. Steela Snad, 7) Mr. Ashok Rastur, Last known address of Addressee nos. 4 & 7, Plot no. 14, Janki Kutir, Juhu, Mumbai - 400049. 8) Mr. Abrar Ali, Last known address: Plot no. 22, Janki Kutir, Juhu, Mumbai - 400049. ...Opponents and those, whose interests have been vested in the said property may submit their say at the time of hearing at the venue mentioned above. Failure to submit any say shall be presumed that nobody has any objection to this regard and further action will be taken accordingly.

Description of the Property :-

Claimed Area

Unilateral Deed of Conveyance of land bearing Plot nos. 14 and 22, bearing CTS nos. 567/3 admeasuring 785 sq. mtrs., 567/4 admeasuring 9.50 sq. mtrs., 567/5 admeasuring 9.50 sq. mtrs., 567/6 admeasuring 15 sq. mtrs., 567/7 admeasuring 9 sq. mtrs., 567/8 admeasuring 120.30 sq. mtrs., 567/9 admeasuring 110.10 sq. mtrs. and 567/10 admeasuring 599.70 sq. mtrs. i.e. CTS nos. 567/3 to 567/10 totally admeasuring 1658.10 sq. mtrs. of village - Juhu, Taluka - Andheri, CTSO Vile Parle of Mumbai Suburban District alongwith the building of Janki Vasundhara CHS. standing thereon in favour of the Applicant Society.

The hearing is fixed on 11/06/2025 at 3.00 p.m.

Sd/-

(Anand Katke)

District Deputy Registrar,

Co-operative Societies,

Mumbai City (3) Competent Authority,

U/s 5A of the MOFA, 1963.

RHI Magnesita India Limited

CIN: L28113MH2010PLC312871

Regd. Office : Unit No.705, 7th Floor, Lodha Supremus, Kanjurmang Village Road, Kanjurmang (East), Mumbai, Maharashtra - 400042

Phone No : +91-22-66090600; Fax No : +91-22-66090601

Email : corporate.india@rhimagnesita.com ; Website : www.rhimagnesita.com

Extract of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025

Extract of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025													
(Amount in Rs. Lacs, unless otherwise stated)													
Sl. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended		
		March 31, 2025	December 31, 2024	March 31, 2024	March 31, 2025	March 31, 2024	March 31, 2025	December 31, 2024	March 31, 2024	March 31, 2025	March 31, 2024		
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)		
1	Total Income from operations	75,545.42	77,431.38	73,623.23	2,89,186.01	2,82,409.45	91,796.80	1,01,070.25	94,329.37	3,67,449.50	3,78,710.40		
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items#)	5,080.76	7,531.14	10,776.40	30,086.34	34,377.42	3,782.74	6,429.77	9,475.95	26,265.81	31,027.04		
3	Exceptional Item	-	-	-30,936.00	-	-30,936.00	-	-	-32,577.63	-	-32,577.63		
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items#)	5,080.76	7,531.14	(20,159.60)	30,086.34	3,441.42	3,782.74	6,429.77	(23,101.68)	26,265.81	(1,550.59)		
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items#)	3,639.28	5,617.49	(23,001.92)	22,300.29	(5,537.52)	3,618.21	4,753.86	(25,789.98)	20,251.28	(10,010.94)		
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,592.13	5,637.27	(23,042.20)	22,269.78	(5,543.24)	3,523.80	4,773.48	(25,950.78)	20,172.82	(10,143.46)		
7	Equity share capital (Face value Rs. 1/- per share)	2,065.01	2,065.01	2,065.01	2,065.01	2,065.01	2,065.01	2,065.01	2,065.01	2,065.01	2,065.01		
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet				4,05,480.85	3,88,094.44				3,87,796.52	3,82,507.97		
9	Basic and Diluted earnings(loss) per equity share (Face value of Rs. 1 each share) (Rs.) ##	1.76	2.72	(11.14)	10.80	(2.69)	1.75	2.30	(12.49)	9.81	(4.88)		